

13 अगस्त 2016 को वार्षिक उत्सव का विस्तृत रिपोर्ट:-

दिनांक 13 अगस्त 2016 (शनिवार) को 2.00 बजे दिन से अन्तर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर 'संकल्प उत्सव' के नाम से दधीचि देहदान समिति ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। उक्त कार्यक्रम पटना के तारामण्डल स्थिति सभागार में सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री एवं दधीचि देहदान समिति, बिहार के मुख्य संरक्षक श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आप अंगदान कर जीवन की दूसरी परी खेल सकते हैं | उन्होंने कहा कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था होनी चाहिए | पी० एम० सी० एच० एवं आई० जी० आई० एम० एस० के चिकित्सकों को इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है | देश में पाँच लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है, जबकि प्रत्येक वर्ष डेढ़ लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है | सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है | ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय ही लोगों को अंगदान का संकल्प दिलाया जाय | राज्य सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे जिसपर लोग कभी भी अंगदान के लिए फोन कर सकें | समारोह में सम्माननीय अतिथिगण के रूप में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री जे० एन० सिंह, दधीचि देहदान समिति, दिल्ली के महामंत्री एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर श्री हर्ष मल्होत्रा, पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डा० एस० एन० आर्या, निदेशक, आई० जी० आई० एम० एस०, पटना, डा० एन० आर० विश्वास एवं अध्यक्ष के रूप में बिहार विधान परिषद् के पूर्व उपनेता एवं दधीचि देहदान समिति के बिहार के अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद उपस्थित थे | पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था दीघा विधान सभा क्षेत्र के विधायक एवं दधीचि देहदान समिति के सदस्य श्री संजीव कुमार चैरसिया ने अपनी देख-रेख में किया | कार्यक्रम में अंग दान एवं देहदान विषय की तकनीक की व्याख्या करने हेतु पटना के नेत्र रोग के वरिष्ठ सल्य चिकित्सक डा० सुभाष प्रसाद, पटना के वरिष्ठ फिजीशियन डा० राजीव कुमार सिंह एवं आई० जी० आई० एम० एस० के चक्षु विभाग के विभागाध्यक्ष डा० विभूति प्रसन्न सिन्हा उपस्थित थे |

उक्त कार्यक्रम में तारामण्डल का सभागार लोगों से खचा-खच भरा था | लगभग 500 के आस-पास लोगों ने इस कार्यक्रम में सिरकत किया | कार्यक्रम 3 घंटे तक अनवरत चलता रहा | कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन समारोह से हुई जिसमें दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया | उसके पश्चात् नेत्रहीन बच्चियों द्वारा अतिथियों एवं आगंतुकों के स्वागत हेतु स्वागत गान प्रस्तुत किया गया | स्वागत गान के पश्चात् दधीचि देह दान समिति, दिल्ली द्वारा तैयार किया हुआ 16 मिनट का वीडियो फिल्म जिसका नाम 'जन संदेश' है दिखाया गया | तत्पश्चात अतिथियों एवं मुख्य अतिथि का सम्बोधन हुआ और अध्यक्षीय भाषण हुआ | मंच संचालन दधीचि देह दान समिति के सचिव श्री बिमल कुमार जैन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डा० राजीव कुमार सिंह ने किया |

विगत वर्षों में जिन लोगों ने देह दान/अंगदान करने की इच्छा व्यक्त करते हुए अंगदान/देह दान करने हेतु फार्म भरा था | उन लोगों को प्रशस्ति-पत्र एवं एक गमला में लगा हुआ पौधा से मंच पर सम्मानित किया गया, तथा जिन परिवारों के किसी सदस्य ने अंग दान या देह दान किया था उन परिवारों को भी प्रशस्ति-पत्र एवं पौधा देकर मंच से सम्मानित किया गया |

अन्त में वन्दे मातरम् गीत से कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई |

उक्त कार्यक्रम में अंगदान/देहदान के अभियान के समर्थन में सामुहिक हस्ताक्षर भी कराये गये | बड़ी संख्या में लोग सादे बैनर पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये | कुल 44 लोगों ने अंगदान/देहदान करने की इच्छा जाहिर करते हुए फार्म भरा | आगन्तुकों में से 106 लोगों ने परिचय पत्र फार्म भरा जिसमें अंगदान/देहदान विषय का 'समर्थन' व्यक्त किया | 4 लोगों ने अभियान के समर्थन में 'नहीं' व्यक्त किया | शेष 84 लोगों ने अभियान के समर्थन में कुछ भी नहीं व्यक्त किया |